



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 अग्रहायण 1944 (श0)
(सं0 पटना 1026) पटना, सोमवार, 28 नवम्बर 2022

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

23 नवम्बर 2022

सं० 2प/मु०-03-10/2020/11251/पं०रा०—बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-152 (5) के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों हेतु लोक प्रहरी तंत्र स्थापित किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु सरकार द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त को अगले आदेश तक अपने-अपने जिले के लिए लोक प्रहरी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-18(5), धारा-44(4), धारा-70(5) एवं धारा-97(5) के अधीन प्राप्त शिकायतों की जाँच एवं सुनवाई लोक प्रहरी द्वारा की जायेगी। सुनवाई के समय लोक प्रहरी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा। लोक प्रहरी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार संबंधित पंचायत/ग्राम कचहरी के प्रधान/उप-प्रधान को उसके पद से हटाने संबंधी आदेश पारित करेगी।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मिहिर कुमार सिंह,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1026-571+500-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>